



Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

आपका स्वागत है-

युग वेदा संजीवनी में





Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.



- हर किस्मी के लिए आय अर्जित करने का एक मंच, बिना निवेश के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप कंपनी से जुड़कर आय अर्जित करने के लिए रेफर करके और अपनी टीम बनाकर कर सकते हैं।
- “स्वास्थ्य धन है, धन स्वास्थ्य नहीं” आयुर्वेद रोग ठीक करने की पुरानी शैली हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को पुनः प्राप्त करना।





Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

आय

01

₹1500 की जॉइनिंग पर आप प्रतिदिन
₹3500 तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

₹3000 की जॉइनिंग पर आप प्रतिदिन
₹7000 तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

02

03

₹4500 की जॉइनिंग पर आप प्रतिदिन
₹10,000 तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

₹9000 की जॉइनिंग पर आप प्रतिदिन
₹20,000 तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

04






Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

Joning- 1500
1 ID Direct - 250

1st Pair 1:1 or 1:1 = 300
Next 1 : 1 Unlimited



प्रतिदिन की आय





Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

पहली खरीदारी में 2 तरह की इनकम होती है

Direct Sponsor

जब आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं।
और वह 1d राशि 1500 के साथ में शामिल
होता है तो आपको Direct Sponsor
आय के रूप में 250 मिलते हैं।

Matching Income

यदि आपने बाई ओर 1 Sponsor और
दाई ओर 1 Sponsor को संदर्भित किया
हैं। तो आप मिलान आय लेने के पात्र हैं।
असीमित गहराई तक.

8 TYPES OF REPURCHASE INCOME

1-Retail Profit Income

कंपनी के सदस्य के रूप में जब आप कोई उत्पाद दोबारा खरीदते हैं। तो आपको MRP पर 30% की छूट मिलती है।



2-Self Purchase Income

कंपनी के एक सदस्य के रूप में स्वयं खरीदारी करने पर आपको अपने Bv पर (7.5% से 35%) मिलता है। यह आपकी रैंक पर निर्भर करता है।



Left Bv	Right Bv	रैंक	%
0	0	एसोसिएट	7.5%
10,000	10,000	राइजिंग स्टार	10%
20,000	20,000	शाइनिंग	12.5%
40,000	40,000	चाँदी	15%
60,000	60,000	सोना	17.5%
75,000	75,000	प्लैटिनम	20%
2,00000	2,00000	रुबी	23%
5,00000	5,00000	मोती	26%
10,00000	10,00000	डायमंड	29%
15,00000	15,00000	एंबेसडर रैंक	32%
25,00000	25,00000	क्राउन एंबेसडर रैंक	35%



Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.



3- Direct Income -10%

जब आपका सीधे संदर्भित सदस्य खरीदारी करता है।
तो आपको उनके BV पर 10% मिलता है। हो सकता
है। ये बाएँ दाएँ हों।



4- Matching Income

यदि आपकी टीम ने बाएँ में ₹5000 और दाएँ में ₹4300
किया था। तो मिलान 1:r होगा। अर्थात् 4300:4300 और
आपको इसका 10% मिलेगा। इसका मतलब है। कि
आपको Matching आय के रूप में ₹430 मिलेगा।

5-Rider Income 10%

दोबारा खरीदारी में जब आपकी टीम का सदस्य आय अर्जित करता है। तो आपको उस आय का 10% मिलता है। मान लीजिए कि इस महीने A ने 5000 की आय अर्जित की है। तो आपको 500 मिलेंगे। वह सीधे आपके पास आना चाहिए।



6-Education Fund 4%

उस महीने में कुल टर्नओवर का अलग %Education फंड के कुल प्राप्तकर्ता Education फंड का लाभ पाने के लिए आपको प्लैटिनम रैंक तक पहुंचना होगा।





Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.



7- Travel Fund 3%

उस महीने में कुल कारोबार का अलग %/
यात्रा फंड के कुल प्राप्तकर्ता। ट्रेवल फंड लेने
के लिए आपको रुबी रैंक तक पहुंचना होगा।



8- Vehicle Fund 2%

उस महीने में कुल टर्नओवर/कुल वाहन
फंड का अलग% Vehicle फंड का लाभ लेने के
लिए आपको डायमंड रैंक तक पहुंचना होगा।



Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

9- House Fund 1%

उस महीने में कुल टर्नओवर का अलग % फंड के कुल प्राप्तकर्ता। फंड का लाभ लेने के लिए आपको क्राउन एंबेसडर रैंक तक पहुंचना होगा।



WELCOME YOU TO THE LIFE CHANGING OPPORTUNITY



हमारे सपने



बहुत सारा पैसा



सपन का घर



लगजरी कार



विदेश या 1



समय की आजादी



मान - स न



अच्छी सेहत



Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

आप अपने समय को कैसे बढ़ाएंगे ?

समय बेचने वाले 90%



8 घंटे प्रति दिन x 5 दिन प्रति सप्ताह = 40 घंटे

50 सप्ताह प्रति वर्ष = 2000 घंटे प्रति वर्ष

एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में

40 वर्ष काम करता है तो-

2000 घंटे प्रति वर्ष x 40 वर्ष

= 80,000 घंटे पूरी ज़िंदगी में

यदि एक व्यक्ति की प्रतिमाह की आय

₹.1 लाख है तो पूरे साल की ₹. 12 लाख

तो प्रति घंटे आय ₹.600/-

अतः हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई

₹. 4.80 करोड़

समय खरीदने वाले 10%



बड़ी कम्पनी

10,000 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन = 80,000 घंटे

एक कर्मचारी बड़ी कम्पनी को ₹.600/- प्रति घंटे
कमा कर देता है तो-

80,000 घंटे ₹. x 600/- प्रति घंटे

= 480 करोड़ एक दिन में


आप की पूरी जिंदगी की कमाई = एक बड़ी कम्पनी की एक दिन की कमाई।

नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ?

TRADITIONAL DISTRIBUTION



DIRECT SALES DISTRIBUTION



हर बीमारी का सिर्फ एक इलाज **संजीवनी** खाएं निरोग जीवन बिताएं



Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.



मैंगोस्टीन



कंटकारी



ब्लैकबेरी



गोजी बेरी



अकाई बेरी



बेलपत्र



मिल्क थिस्टल



गिलोय



आमलकी



मोरिंगा



अश्वगंधा



SANJIVANI के स्वास्थ्य लाभ:

1. एलर्जी को कम करता है और हिस्टामाइन की रिहाई को रोक कर सूजन को रोकता है।
2. यह रक्तचाप को कम करने और मधुमेह के प्रबंधन में फायदेमंद है।
3. शरीर को सही मात्रा ऑक्सीजन पहुँचाता है और शरीर का पी एच स्तर संतुलित करता है।
4. इसमें मजबूत एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं।
5. यह हृदय और परिसंचरण प्रणाली को सशक्त बनाता है।
6. रक्त परिसंचरण और कायाकल्प कोशिका का समर्थन करता है।
7. तांबा, मैंगनीज और मैंगनीशियम में समृद्ध है जो हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
8. लूचा को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखता है।
9. आयु से संबंधित न्यूट्रोडीजेनेरेटिव विकारों और धब्बदार विकारों को रोकता है।
10. यह कब्ज को खत्म करता है।

11. इसका उपयोग प्रजनन क्षमता और सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
12. यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है।
13. यह शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करता है और शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार भी करता है। जिससे पुरुषों में कामेच्छा और प्रजनन क्षमता बढ़ती है।
14. यह वजन घटाने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है।
15. यह झुर्रियों और उम्र बढ़ने की उपस्थिति को कम करता है।
16. शरीर से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में सहायक है।
17. हड्डी की ताकत और नई हड्डी के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है।
18. यह मेमोरी मोड में सुधार करके एकाग्रता को बढ़ाता है।
19. यह जठरांत्रप्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है।
20. यह विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है।

युग वेदा संजीवनी

अश्वगंधा :- अश्वगंधा एक औषधीय जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। यह पुरुषों में प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और पुरुषों / महिलाओं में यौन क्रिया में सुधार करता है। मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाएं।



गोखरू:- गोखरू में पाए जाने वाला सैपोनिन नामक तत्व में रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। सैपोनिन सीरम ग्लूकोज, सीरम ट्राईग्लिसराइड और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर आप त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं तो गोखरू के सेवन से निश्चित तौर पर आपकी समस्या कम हो सकती है।



गैन्गुडर्मा:- यह श्वेत रक्त कोशिकाओं पर अपने प्रभाव के माध्यम से प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ा सकता है, जो संक्रमण और कैंसर से लड़ने में मदद करता है।



शाल्पर्निया:- शाल्पर्निया अपने ज्वरनाशक गुण के कारण बुखार को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके एंटीफंगल गुणों के कारण रुसी के साथ-साथ बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। शाल्पर्णी की पत्ती का चूर्ण गुलाब जल के साथ माथे पर लगाने से सिरदर्द से राहत मिलती है। पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।



मिल्क थिस्ल :-मिल्क थिस्ल लिवर से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है। एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी वायरल तत्व से भरपूर पाया जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट तत्वों की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी इस प्लांट का उपयोग दवा बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों से जुड़ी दवाइयां बनाने में होता है।



कुचला:- कुचला में एंटी इन्फ्लामेट्री गुण पाया जाता है, जो अस्थमा, गठिया और बवासीर जैसी परेशानियों को दूर करने में कारगर है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स (Free radicals) से दूर करने में सहायक है। इसके अलावा कुचला में कई बीमारियों को दूर करने के गुण होते हैं।



नीम:-नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। नीम के पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेट्री, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले रोग यानी पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा इसमें कई और भी गुण पाए जाते हैं।



कंटकारी :-श्वेत कंटकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कृमिरोधी; सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्रकृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेत कंटकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है।



ह ही:- शोध से पता चलता है कि हल्दी ऑक्सीडेटिव और सूजन संबंधी स्थितियों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, गठिया, चिंता और हाइपरलिपिडिमिया के प्रबंधन में मदद कर सकती है। यह व्यायाम-प्रेरित सूजन और मांसपेशियों में दर्द के प्रबंधन में भी मदद कर सकता है, इस प्रकार सक्रिय लोगों में रिकवरी और उसके बाद के प्रदर्शन को बढ़ाता है।



शंख भस्म:- शंख भस्म में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जोड़ों के दर्द या कमर दर्द में भी शंख के सेवन से काफी आराम मिलता है। साथ ही शंख कोलेजन का भी अच्छा स्रोत है जो, आपकी त्वचा और अन्य कोशिकाओं के लिए भी काफी लाभदायक होता है। शंख भस्म में आयरन की भी उच्च मात्रा पाई जाती है। इसके उपयोग से एनीमिया जैसी समस्याएं ठीक हो सकती है।



गिलोय:- गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस (giloy juice) ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इन्सुलिन का स्राव बढ़ाती है और इन्सुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है।



अकाई बेरी:- अकाई बेरी, विटामिन्स, एंटीऑक्सिडेंट्स और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो स्किन को गहराई से पोषण देते हैं और त्वचा को फिर जीवंत करने के लिए त्वचा के लिए एक सुपरफूड की तरह काम करते हैं। यह विटामिन-ए, सी और ई के साथ-साथ ओमेगा-3, 6 और 9 फैटी एसिड का एक बड़ा स्रोत हैं।



पिप्पली:- पिप्पली में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण होते हैं जिनके कारण टी. बी. (तपेदिक) और अन्य संक्रामक रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग लाभदायक होता है। पिप्पली फेफड़ों की शक्ति में सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह भूख को बेहतर बनाती है, ।



हरितकी:- हरितकी में ऐसे तत्व होते हैं, जिन्हें कैंसररोधी, जीवाणुरोधी, मधुमेहरोधी और ऑक्सीकरणरोधी गुणों सहित उपचार गुणों से युक्त माना जाता है। हरितकी बहुत ही पौष्टिक है जिसमें आवश्यक विटामिन, खनिज, और प्रोटीन होते हैं। यह विटामिन सी, मैंगनीज, सेलेनियम, पोटेशियम, लोहा और तांबा का एक स्रोत है।



बला:- बला का मतलब होता है ताकत। इसके जरिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और ताकत प्राप्त होती है। बला हड्डियों की मजबूती, मसल्स और जोड़ों की मजबूती, वीर्य बढ़ाने, मूत्राशय में जलन को ठीक करने तथा हृदय संबंधी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है।



बेलपत्र:- बेलपत्र दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करते हैं, तो इससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करते हैं।



मोरिंगा :- संतरे से विटामिन सी और केले से 15 गुना अधिक पोटेशियम। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और अमीनो एसिड भी होते हैं, जो आपके शरीर को ठीक करने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। यह एंटी ऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, ऐसे पदार्थ जो कोशिकाओं को क्षति से बचा सकते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं।



गुरमार:- गुरमार में जिम्नेमिक नाम का एक एसिड होता है जो शरीर में मौजूद प्रोटीन एंजियोटेंसिन की गतिविधि को रोकने में मदद करता है। इसका सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है।



मैंगोस्टीन :- फलों की रानी के रूप में जाना जाने वाला मैंगोस्टीन विभिन्न प्रकार के आवश्यक विटामिन, खनिज, और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के साथ फाइबर प्रदान करता है, साथ ही साथ एक अद्वितीय श्रेणी के एंटी ऑक्सीडेंट यौगिकों को जैथोन के रूप में जाना जाता है। मैंगोस्टीन वजन घटाने और मोटापे में भूमिका निभाता है।



गोजी बेरी:- गोजी बेरीज मीठे होते हैं। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, ल्यूटिन और पॉलीसेकेराइड्स भी मौजूद होते हैं। गोजी बेरीज में नींबू और संतरे से भी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जा जाता है।



ब्लैकबेरी:- ब्लैकबेरी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में कॉलेजन बनने में मदद मिलती है। ऐसे में इसके सेवन से बालों को मजबूती मिलती है। इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इंसुलिन को कम करने में बेहद मददगार है।





Yug Veda Sanjivani
Pvt. Ltd.

धन्यवाद आपका

YUG VEDA SANJIVANI PRIVATE LIMITED

🌐 info@yugvedas.in

📍 Vill- Patwari, post- Bistrakh, Dadari,
G.B.Nagar.Sec.02, Greater noida west
Land mark- near bank of india -203207

